



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402
Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : ETD 49/T

Date : 19 October 2023

TECHNICAL COMMITTEE : Illumination Engineering and Luminaires, ETD 49

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Illumination Engineering and Luminaires Sectional Committee, ETD 49. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : ETD 49 (23883) WC

Title of the document : ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR LIGHTING AND BEACONING OF AERODROMES CHARACTERISTICS OF INSET AND ELEVATED LUMINAIRES USED ON AERODROMES AND HELIPORTS

Document Type : New Indian Standard

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) *This standard defines the requirements and testing procedures for inset and elevated luminaires with lamps used in aeronautical ground lighting systems and excluding luminaires for general lighting. It supersedes IS 7785 Series 'Specification for Elevated Type Aerodrome Lighting Fittings' and IS 11071 'Specification for Inset Type Aerodrome Lighting Fittings'.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 18 November 2023

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at eedt@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(UNNIKRISHNAN A R)
Head (Electrotechnical Department)
Email: eetd@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : ETD 49/T

दिनांक : 19-10-2023

तकनीकी समिति : Illumination Engineering and Luminaries Sectional Committee, ETD 49

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : ETD 49 (23883) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 18 November 2023

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : UNNIKRISHNAN A R
(Electrotechnical Department)
ई-मेल : eetd@bis.gov.in